



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 107 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2002/माघ 9, 1923

No. 107]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2002/MAGHA 9, 1923

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 जनवरी, 2002

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) ( संशोधन ) विनियम, 2002

का.आ. 127(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 (इसमें इसके पश्चात् विनियमों के रूप में निर्दिष्ट) में -

- 1) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) में, निम्नालिखित परतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि यह छूट लागू नहीं होगी यदि सरकारी कंपनी विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयरों अथवा मताधिकारों अथवा नियंत्रण को अर्जित करती है।"

- 2) विनियम 20 में, -

क) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, शब्दों "तारीख जब केन्द्रीय सरकार (मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्) सफल बोली लगाने वाले का नाम घोषित करती है की पूर्ववर्ती तारीख होगी" के लिए शब्द "उस तारीख की पूर्ववर्ती तारीख होगी जब केन्द्रीय सरकार वित्तीय बोली खोलती है" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

ख) उप-विनियम (3) में, -

i) स्पष्टीकरण (i) में, शब्दों "मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, सफल बोली लगाने वाले का नाम घोषित करती है" के लिए शब्द "वित्तीय बोली खोलती है" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

ग) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश के मामले में, जिसके शेयर बारंबार व्यापारित नहीं होते हैं, न्यूनतम प्रस्ताव कीमत सफल बोली लगाने वाले द्वारा केन्द्रीय सरकार को अदा की गई कीमत होगी, जो विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के पश्चात् की गई।"

घ) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण 1 में, शब्द "या लाभांश-सहित" शब्द "बोनस-सहित" के पश्चात् अंतःस्थापित किए जायेंगे।

**गव टिप्पण :**

1. भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997, मूल विनियम, का.आ. सं.124(अ), 20 फरवरी, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. तत्पश्चात् शुद्धि-पत्र, का.आ. सं.106(अ), 6 फरवरी, 1998 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ था ।
3. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 28 अक्टूबर, 1998 को, का.आ. सं. 930(अ), भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था द्वारा संशोधित हुआ था ।
4. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 30 दिसम्बर, 2000 को, का.आ. सं. 1178(अ), भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था द्वारा संशोधित हुआ था ।
5. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 791(अ), द्वारा 17 अगस्त 2001 को संशोधित हुआ था ।
5. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 875(अ), द्वारा 12 सितंबर 2001 को संशोधित हुआ था ।
7. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1058(अ), द्वारा 24 अक्टूबर 2001 को संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th January, 2002

**Securities and Exchange Board of India (Substantial  
Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment)  
Regulations, 2002**

S.O. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2002.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the Regulations) -

- 1) In Regulation 3, in sub-regulation (1), in clause (h), the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided that this exemption shall not be applicable if a Government company acquires shares or voting rights or control of a listed Public Sector Undertaking through the competitive bidding process of the Central Government for the purpose of disinvestment.”

- 2) In Regulation 20,-

- a) In sub-regulation (2), in the Explanation, for the words“(after receiving the cabinet approval) announces the name of successful bidder” the words “opens the financial bid” shall be substituted.

- b) In sub-regulation (3),-

- i) in the Explanation (ia), for the words “after receiving the cabinet approval, announces the name of the successful bidder” the words “opens the financial bid” shall be substituted.

- c) After sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“ (3A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), in case of disinvestment of a Public Sector Undertaking, whose shares are

infrequently traded, the minimum offer price shall be the price paid by the successful bidder to the Central Government, arrived at after the process of competitive bidding of the Central Government for the purpose of disinvestment."

d) In sub-regulation (6), in Explanation 1, the words "or cum -dividend" shall be inserted after the word "cum-bonus".

[F. No. SEBI/LE/1700/2002]

D. R. MEHTA, Chairman

**Footnote:**

1. SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, the principal regulation was published in the Gazette of India on February 20, 1997, vide S.O. No.124(E).
2. Subsequently a Corrigendum was published in the Gazette of India Extraordinary on February 6, 1998, vide S.O. No. 106(E).
3. It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 1998 which was published in the Gazette of India on October 28, 1998, vide S.O. No. 930(E).
4. It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2000 which was published in the Gazette of India on December 30, 2000 vide S.O. No. 1178 (E).
5. It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2001 on 17<sup>th</sup> August 2001 vide S.O. No. 791(E).
6. It was subsequently amended by the SEBI (substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2001 on 12<sup>th</sup> September 2001 vide S.O. No. 875 (E)
7. It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2001 on 24<sup>th</sup> October 2001 vide S.O. No. 1058 (E)

309-en/02

